<u>प्रपत्र / Form</u>

चल संपत्ति के लेन-देन के संबंध में, केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(3) के अधीन पूर्व सूचना देने या पूर्व मंजूरी लेने के लिए प्रपत्र

FORM FOR GIVING PRIOR INTIMATION OR SEEKING PREVIOUS SANCTION UNDER RULE 18(3) OF THE CCS

1 सरकारी कर्मचारी का नाम Name of the Government Servant 2. वेतनमान और वर्तमान-वेतन Scale of Pay and present pay 3 आवेदन पत्र का उद्देश्य - लेन देन के लिए मंजूरी/ लेन देन की स्चना Purpose of application - sanction for transaction/ intimation of transaction 4 संपित अर्जित की गयी या बेची गयी Whether property is being acquired or disposal of property 5 क) संपित के अर्जन/बेचने की संभाव्य तारीख Probable date of acquisition/disposal of property ख) यदि संपित पहले ही अर्जित या बेच दी गयी है तो लेन-देन की यथार्थ तारीख If the property is already acquired /disposed of – actual date of transaction 6. क) संपित का विवरण (जैसे कार,स्कूटर, मोटर साइकल/फ्रिज/रेडियो/रिडिओग्राम/आभूषण/लोन/बीमा पॉलिसी आदि) Description of property (e.g.Car/Scooter/MotorCycle/Refrigerator/Radio/Radiogra m/Jewellery/Loans/Insurance/Policies etc.) ख) बनावट, मॉडल सं. (यदि वाहन है तो रिजस्ट्रेशन न. लिखे), जहां आवश्यक हो Make, model (and also Registration No. in case of Vehicles), where necessary 7 अर्जन/ बेचने का प्रकार (खरीद/बिक्री/उपहार/गिरवी/लीज या अन्य) Mode of acquisition/disposal (Purchase/Sale, gift,	
2. वेतनमान और वर्तमान-वेतन Scale of Pay and present pay 3 आवेदन पत्र का उद्देश्य - लेन देन के लिए मंज्र्री/ लेन देन की स्चना Purpose of application - sanction for transaction/ intimation of transaction 4 संपित अर्जित की गयी या बेची गयी Whether property is being acquired or disposal of property 5 क) संपित के अर्जन/बेचने की संभाव्य तारीख Probable date of acquisition/disposal of property ख) यदि संपित पहले ही अर्जित या बेच दी गयी है तो लेन-देन की यथार्थ तारीख If the property is already acquired /disposed of – actual date of transaction 6. क) संपित का विवरण (जैसे कार,स्कूटर, मोटर साइकल/फ्रिज/रेडियो/रिडिओग्राम/आभूषण/लोन/बीमा पॉलिसी आदि) Description of property (e.g.Car/Scooter/MotorCycle/Refrigerator/Radio/Radiogra m/Jewellery/Loans/Insurance/Policies etc.) ख) बनावट, मॉडल सं. (यदि वाहन है तो रिजिस्ट्रेशन न. लिखे), जहां आवश्यक हो Make, model (and also Registration No. in case of Vehicles), where necessary 7 अर्जन/ बेचने का प्रकार (खरीद/बिक्री/उपहार/गिरवी/लीज या अन्य) Mode of acquisition/disposal (Purchase/Sale, gift,	
Scale of Pay and present pay 3 आवेदन पत्र का उद्देश्य - लेन देन के लिए मंजूरी/ लेन देन की सूचना Purpose of application - sanction for transaction/ intimation of transaction 4 संपति अर्जित की गयी या बेची गयी Whether property is being acquired or disposal of property 5 क) संपति के अर्जन/बेचने की संभाव्य तारीख Probable date of acquisition/disposal of property ख) यदि संपति पहले ही अर्जित या बेच दी गयी है तो लेन-देन की यथार्थ तारीख If the property is already acquired /disposed of - actual date of transaction 6. क) संपति का विवरण (जैसे कार,स्क्टर, मोटर साइकल/फ्रिज/रेडियो/रिडियोग्राम/आभूषण/लोन/बीमा पॉलिसी आदि) Description of property (e.g.Car/Scooter/MotorCycle/Refrigerator/Radio/Radiogra m/Jewellery/Loans/Insurance/Policies etc.) ख) बनावट, मॉडल सं. (यदि वाहन है तो रिजिस्ट्रेशन न. लिखे), जहां आवश्यक हो Маке, model (and also Registration No. in case of Vehicles), where necessary 7 अर्जन/ बेचने का प्रकार (खरीद/बिक्री/उपहार/गिरवी/लीज या अन्य) Mode of acquisition/disposal (Purchase/Sale, gift,	
आवेदन पत्र का उद्देश्य - लेन देन के लिए मंजूरी/ लेन देन की सूचना Purpose of application - sanction for transaction/ intimation of transaction 4 संपित अर्जित की गयी या बेची गयी Whether property is being acquired or disposal of property 5 क) संपित के अर्जन/बेचने की संभाव्य तारीख Probable date of acquisition/disposal of property ख) यदि संपित पहले ही अर्जित या बेच दी गयी है तो लेन-देन की यथार्थ तारीख If the property is already acquired /disposed of – actual date of transaction 6. क) संपित का विवरण (जैसे कार,स्कूटर, मोटर साइकल/फ्रिज/रेडियो/रिडिओग्राम/आभूषण/लोन/बीमा पॉलिसी आदि) Description of property (e.g.Car/Scooter/MotorCycle/Refrigerator/Radio/Radiogra m/Jewellery/Loans/Insurance/Policies etc.) ख) बनावट, मॉडल सं. (यदि वाहन है तो रिजिस्ट्रेशन न. लिखे), जहां आवश्यक हो Make, model (and also Registration No. in case of Vehicles), where necessary 7 अर्जन/ बेचने का प्रकार (खरीद/बिक्री/उपहार/गिरवी/लीज या अन्य) Mode of acquisition/disposal (Purchase/Sale, gift,	
देन की सूचना Purpose of application - sanction for transaction/ intimation of transaction 4 संपित अर्जित की गयी या बेची गयी Whether property is being acquired or disposal of property 5 क) संपित के अर्जन/बेचने की संभाट्य तारीख Probable date of acquisition/disposal of property ख) यदि संपित पहले ही अर्जित या बेच दी गयी है तो लेन-देन की यथार्थ तारीख If the property is already acquired /disposed of – actual date of transaction 6. क) संपित का विवरण (जैसे कार,स्कूटर, मोटर साइकल/फ्रिज/रेडियो/रिडिओग्राम/आभूषण/लोन/बीमा पॉलिसी आदि) Description of property (e.g.Car/Scooter/MotorCycle/Refrigerator/Radio/Radiogra m/Jewellery/Loans/Insurance/Policies etc.) ख) बनावट, मॉडल सं. (यदि वाहन है तो रिजस्ट्रेशन न. लिखे), जहां आवश्यक हो Make, model (and also Registration No. in case of Vehicles), where necessary 7 अर्जन/ बेचने का प्रकार (खरीद/बिक्री/उपहार/गिरवी/लीज या अन्य) Mode of acquisition/disposal (Purchase/Sale, gift,	
Purpose of application - sanction for transaction/ intimation of transaction 4 संपित अर्जित की गयी या बेची गयी Whether property is being acquired or disposal of property 5 क) संपित के अर्जन/बेचने की संभाव्य तारीख Probable date of acquisition/disposal of property ख) यदि संपित पहले ही अर्जित या बेच दी गयी है तो लेन-देन की यथार्थ तारीख If the property is already acquired /disposed of - actual date of transaction 6. क) संपित का विवरण (जैसे कार,स्क्टर, मोटर साइकल/फ्रिज/रेडियो/रिडिओग्राम/आभूषण/लोन/बीमा पॉलिसी आदि) Description of property (e.g.Car/Scooter/MotorCycle/Refrigerator/Radio/Radiogra m/Jewellery/Loans/Insurance/Policies etc.) ख) बनावट, मॉडल सं. (यदि वाहन है तो रिजस्ट्रेशन न. लिखे), जहां आवश्यक हो Make, model (and also Registration No. in case of Vehicles), where necessary 7 अर्जन/ बेचने का प्रकार (खरीद/बिक्री/उपहार/गिरवी/लीज या अन्य) Mode of acquisition/disposal (Purchase/Sale, gift,	
intimation of transaction 4 संपित अर्जित की गयी या बेची गयी Whether property is being acquired or disposal of property 5 क) संपित के अर्जन/बेचने की संभाट्य तारीख Probable date of acquisition/disposal of property ख) यदि संपित पहले ही अर्जित या बेच दी गयी है तो लेन-देन की यथार्थ तारीख If the property is already acquired /disposed of – actual date of transaction 6. क) संपित का विवरण (जैसे कार,स्कूटर, मोटर साइकल/फ्रिज/फ्रिज/रेडियो/रिडिओग्राम/आभूषण/लोन/बीमा पॉलिसी आदि) Description of property (e.g.Car/Scooter/MotorCycle/Refrigerator/Radio/Radiogra m/Jewellery/Loans/Insurance/Policies etc.) ख) बनावट, मॉडल सं. (यदि वाहन है तो रिजस्ट्रेशन न. लिखे), जहां आवश्यक हो Make, model (and also Registration No. in case of Vehicles), where necessary 7 अर्जन/ बेचने का प्रकार (खरीद/बिक्री/उपहार/गिरवी/लीज या अन्य) Mode of acquisition/disposal (Purchase/Sale, gift,	
4 संपत्ति अर्जित की गयी या बेची गयी Whether property is being acquired or disposal of property 5 क) संपत्ति के अर्जन/बेचने की संभाव्य तारीख Probable date of acquisition/disposal of property ख) यदि संपत्ति पहले ही अर्जित या बेच दी गयी है तो लेन-देन की यथार्थ तारीख If the property is already acquired /disposed of – actual date of transaction 6. क) संपत्ति का विवरण (जैसे कार,स्कूटर, मोटर साइकल/फ्रिज/रिडियो/रिडिओग्राम/आभूषण/लोन/बीमा पॉलिसी आदि) Description of property (e.g.Car/Scooter/MotorCycle/Refrigerator/Radio/Radiogra m/Jewellery/Loans/Insurance/Policies etc.) ख) बनावट, मॉडल सं. (यदि वाहन है तो रजिस्ट्रेशन न. लिखे), जहां आवश्यक हो Make, model (and also Registration No. in case of Vehicles), where necessary 7 अर्जन/ बेचने का प्रकार (खरीद/बिक्री/उपहार/गिरवी/लीज या अन्य) Mode of acquisition/disposal (Purchase/Sale, gift,	
5 क) संपत्ति के अर्जन/बेचने की संभाव्य तारीख Probable date of acquisition/disposal of property ख) यिद संपत्ति पहले ही अर्जित या बेच दी गयी है तो लेन-देन की यथार्थ तारीख If the property is already acquired /disposed of – actual date of transaction 6. क) संपत्ति का विवरण (जैसे कार,स्कूटर, मोटर साइकल/फ्रिज/फ्रेज/रेडियो/रिडओग्राम/आभूषण/लोन/बीमा पॉलिसी आदि) Description of property (e.g.Car/Scooter/MotorCycle/Refrigerator/Radio/Radiogra m/Jewellery/Loans/Insurance/Policies etc.) ख) बनावट, मॉडल सं. (यिद वाहन है तो रिजस्ट्रेशन न. लिखे), जहां आवश्यक हो Make, model (and also Registration No. in case of Vehicles), where necessary 7 अर्जन/ बेचने का प्रकार (खरीद/बिक्री/उपहार/गिरवी/लीज या अन्य) Mode of acquisition/disposal (Purchase/Sale, gift,	
date of acquisition/disposal of property ख) यदि संपत्ति पहले ही अर्जित या बेच दी गयी है तो लेन-देन की यथार्थ तारीख If the property is already acquired /disposed of – actual date of transaction 6. क) संपत्ति का विवरण (जैसे कार,स्कूटर, मोटर साइकल/फ्रिज/रेडियो/रिडओग्राम/आभूषण/लोन/बीमा पॉलिसी आदि) Description of property (e.g.Car/Scooter/MotorCycle/Refrigerator/Radio/Radiogra m/Jewellery/Loans/Insurance/Policies etc.) ख) बनावट, मॉडल सं. (यदि वाहन है तो रजिस्ट्रेशन न. लिखे), जहां आवश्यक हो Make, model (and also Registration No. in case of Vehicles), where necessary 7 अर्जन/ बेचने का प्रकार (खरीद/बिक्री/उपहार/गिरवी/लीज या अन्य) Mode of acquisition/disposal (Purchase/Sale, gift,	
ख) यदि संपत्ति पहले ही अर्जित या बेच दी गयी है तो लेन-देन की यथार्थ तारीख If the property is already acquired /disposed of — actual date of transaction 6. क) संपत्ति का विवरण (जैसे कार,स्कूटर, मोटर साइकल/फ्रिज/रेडियो/रिडओग्राम/आभूषण/लोन/बीमा पॉलिसी आदि) Description of property (e.g.Car/Scooter/MotorCycle/Refrigerator/Radio/Radiogra m/Jewellery/Loans/Insurance/Policies etc.) ख) बनावट, मॉडल सं. (यदि वाहन है तो रिजिस्ट्रेशन न. लिखे), जहां आवश्यक हो Make, model (and also Registration No. in case of Vehicles), where necessary 7 अर्जिन/ बेचने का प्रकार (खरीद/बिक्री/उपहार/गिरवी/लीज या अन्य) Mode of acquisition/disposal (Purchase/Sale, gift,	
लेन-देन की यथार्थ तारीख If the property is already acquired /disposed of – actual date of transaction 6. क) संपत्ति का विवरण (जैसे कार,स्कूटर, मोटर साइकल/फ्रिज/रेडियो/रिडओग्राम/आभूषण/लोन/बीमा पॉलिसी आदि) Description of property (e.g.Car/Scooter/MotorCycle/Refrigerator/Radio/Radiogra m/Jewellery/Loans/Insurance/Policies etc.) ख) बनावट, मॉडल सं. (यदि वाहन है तो रिजिस्ट्रेशन न. लिखे), जहां आवश्यक हो Make, model (and also Registration No. in case of Vehicles), where necessary 7 अर्जन/ बेचने का प्रकार (खरीद/बिक्री/उपहार/गिरवी/लीज या अन्य) Mode of acquisition/disposal (Purchase/Sale, gift,	
If the property is already acquired /disposed of – actual date of transaction 6. क) संपत्ति का विवरण (जैसे कार,स्कूटर, मोटर साइकल/फ्रिज/रेडियो/रिडओग्राम/आभूषण/लोन/बीमा पॉलिसी आदि) Description of property (e.g.Car/Scooter/MotorCycle/Refrigerator/Radio/Radiogra m/Jewellery/Loans/Insurance/Policies etc.) ख) बनावट, मॉडल सं. (यदि वाहन है तो रिजिस्ट्रेशन न. लिखे), जहां आवश्यक हो Make, model (and also Registration No. in case of Vehicles), where necessary 7 अर्जन/ बेचने का प्रकार (खरीद/बिक्री/उपहार/गिरवी/लीज या अन्य) Mode of acquisition/disposal (Purchase/Sale, gift,	
date of transaction 6. क) संपत्ति का विवरण (जैसे कार,स्कूटर, मोटर साइकल/फ्रिज/रेडियो/रडिओग्राम/आभूषण/लोन/बीमा पॉलिसी आदि) Description of property (e.g.Car/Scooter/MotorCycle/Refrigerator/Radio/Radiogra m/Jewellery/Loans/Insurance/Policies etc.) ख) बनावट, मॉडल सं. (यदि वाहन है तो रजिस्ट्रेशन न. लिखे), जहां आवश्यक हो Маке, model (and also Registration No. in case of Vehicles), where necessary 7 अर्जन/ बेचने का प्रकार (खरीद/बिक्री/उपहार/गिरवी/लीज या अन्य) Mode of acquisition/disposal (Purchase/Sale, gift,	
6. क) संपत्ति का विवरण (जैसे कार,स्कूटर, मोटर साइकल/फ्रिज/रेडियो/रडिओग्राम/आभूषण/लोन/बीमा पॉलिसी आदि) Description of property (e.g.Car/Scooter/MotorCycle/Refrigerator/Radio/Radiogra m/Jewellery/Loans/Insurance/Policies etc.) ख) बनावट, मॉडल सं. (यदि वाहन है तो रजिस्ट्रेशन न. लिखे), जहां आवश्यक हो Маке, model (and also Registration No. in case of Vehicles), where necessary 7 अर्जन/ बेचने का प्रकार (खरीद/बिक्री/उपहार/गिरवी/लीज या अन्य) Mode of acquisition/disposal (Purchase/Sale, gift,	
साइकल/फ्रिज/रेडियो/रिडओग्राम/आभूषण/लोन/बीमा पॉलिसी आदि) Description of property (e.g.Car/Scooter/MotorCycle/Refrigerator/Radio/Radiogra m/Jewellery/Loans/Insurance/Policies etc.) ख) बनावट, मॉडल सं. (यदि वाहन है तो रिजस्ट्रेशन न. लिखे), जहां आवश्यक हो Маке, model (and also Registration No. in case of Vehicles), where necessary 7 अर्जन/ बेचने का प्रकार (खरीद/बिक्री/उपहार/गिरवी/लीज या अन्य) Mode of acquisition/disposal (Purchase/Sale, gift,	
आदि) Description of property (e.g.Car/Scooter/MotorCycle/Refrigerator/Radio/Radiogra m/Jewellery/Loans/Insurance/Policies etc.) ख) बनावट, मॉडल सं. (यदि वाहन है तो रजिस्ट्रेशन न. लिखे), जहां आवश्यक हो Make, model (and also Registration No. in case of Vehicles), where necessary 3 अर्जन/ बेचने का प्रकार (खरीद/बिक्री/उपहार/गिरवी/लीज या अन्य) Mode of acquisition/disposal (Purchase/Sale, gift,	
Description of property (e.g.Car/Scooter/MotorCycle/Refrigerator/Radio/Radiogra m/Jewellery/Loans/Insurance/Policies etc.) ख) बनावट, मॉडल सं. (यदि वाहन है तो रजिस्ट्रेशन न. लिखे), जहां आवश्यक हो Make, model (and also Registration No. in case of Vehicles), where necessary 7 अर्जन/ बेचने का प्रकार (खरीद/बिक्री/उपहार/गिरवी/लीज या अन्य) Mode of acquisition/disposal (Purchase/Sale, gift,	
(e.g.Car/Scooter/MotorCycle/Refrigerator/Radio/Radiogra m/Jewellery/Loans/Insurance/Policies etc.) ख) बनावट, मॉडल सं. (यदि वाहन है तो रजिस्ट्रेशन न. लिखे), जहां आवश्यक हो Маке, model (and also Registration No. in case of Vehicles), where necessary 3 अर्जन/ बेचने का प्रकार (खरीद/बिक्री/उपहार/गिरवी/लीज या अन्य) Mode of acquisition/disposal (Purchase/Sale, gift,	
m/Jewellery/Loans/Insurance/Policies etc.) ख) बनावट, मॉडल सं. (यदि वाहन है तो रजिस्ट्रेशन न. लिखे), जहां आवश्यक हो Make, model (and also Registration No. in case of Vehicles), where necessary 3 अर्जन/ बेचने का प्रकार (खरीद/बिक्री/उपहार/गिरवी/लीज या अन्य) Mode of acquisition/disposal (Purchase/Sale, gift,	
ख) बनावट, मॉडल सं. (यदि वाहन है तो रजिस्ट्रेशन न. लिखे), जहां आवश्यक हो Make, model (and also Registration No. in case of Vehicles), where necessary 7 अर्जन/ बेचने का प्रकार (खरीद/बिक्री/उपहार/गिरवी/लीज या अन्य) Mode of acquisition/disposal (Purchase/Sale, gift,	
लिखे), जहां आवश्यक हो Make, model (and also Registration No. in case of Vehicles), where necessary 3 अर्जन/ बेचने का प्रकार (खरीद/बिक्री/उपहार/गिरवी/लीज या अन्य) Mode of acquisition/disposal (Purchase/Sale, gift,	
Make, model (and also Registration No. in case of Vehicles), where necessary 3 अर्जन/ बेचने का प्रकार (खरीद/बिक्री/उपहार/गिरवी/लीज या अन्य) Mode of acquisition/disposal (Purchase/Sale, gift,	
Vehicles), where necessary 7 अर्जन/ बेचने का प्रकार (खरीद/बिक्री/उपहार/गिरवी/लीज या अन्य) Mode of acquisition/disposal (Purchase/Sale, gift,	
(खरीद/बिक्री/उपहार/गिरवी/लीज या अन्य) Mode of acquisition/disposal (Purchase/Sale, gift,	
Mode of acquisition/disposal (Purchase/Sale, gift,	
mortgage, lease or otherwise)	
8 बेची/खरीदी गयी संपति की कीमत (उपहार की स्थिति में	
बाजार भाव)	
Sale/Purchase price of the property (Market value in the case of Gifts)	
9 अर्जन हो तो, किस स्त्रोत या किन स्त्रोतों से रुपया	
लगाया गया/ लगाने का प्रस्ताव है	
In cases of acquisition, source or sources from which	
financed /proposed to be financed-	
क) वैयक्तिक बचत Personal Savings	
ख) अन्य स्त्रोतों के विवरण	
Other resources giving details 10 संपत्ति की बिकी के संबंध में क्या उसके उसके अर्जन हेत	
रा तर विश्वत के रावच या, वचा उराक उराक उराक उराक हाउंचा हाउ	
अपेक्षित मंजूरी प्राप्त है/ सूचना दी गयी (मंजूरी/ पावती	
की एक प्रति संलग्न करें)	
In the case of disposal of property, was requisite	
sanction/intimation obtained / given for its acquisition (a copy of the sanction/acknowledgement should be attached)	
11 पार्टी का नाम व पता जिसके साथ लेन-देन करने का	
क इरादा है/लेन देन किया गया	
Name and address of the party with whom transaction is	
proposed to be made/has been made	

ख	क्या यह पार्टी आवेदक के रिश्तेदार है? हाँ तो, संबंध का			
	उल्लेख करें			
	Is the party related to the applicant? If so, state the relationship.			
ग	क्या आवेदक ने इस पार्टी के साथ पदीय हैसियत से किसी			
	समय किसी प्रकार का लेन-देन किया या निकट भविष्य			
	में लेन-देन करने की संभावना है			
	Did the applicant have any dealings with the party in his official capacity at any time, or is the applicant likely to have any dealings with him in the near future?			
घ	पार्टी के साथ अधिकृत लेन-देन की प्रकृति			
	Nature of the official dealings with the party			
इ	लेन-देन कैसे किया गया? (क्या किसी सांविधिक निकाय			
	द्वारा या विज्ञापन के माध्यम से से निजी एजेंसी या			
	दोस्तों एवं रिशतेदारों द्वारा किया गया। पूरा विवरण दें)			
	How was the transaction arranged? (Whether through any			
	statutory body or a private agency through advertisement or particulars to be given)			
12	भेट द्वारा अर्जन हो तो, क्या के. सि॰ से. (आ)			
	नियमावली, 1964 के नियम 13 के अंतर्गत भी मंजूरी			
	आवश्यक है ?			
	In case of acquisition by gift, whether sanction is also required under Rule 13 of the CCS(Conduct) Rules, 1964			
13	अन्य कोई संबन्धित तथ्य जो आवेदक वर्णित करना चाहे			
	Any other relevant fact which the applicant may like to mention.			
घोषणा DECLARATION				
	में एतददवारा घोषित करता/करती	हूँ कि ऊपर दिये गए सभी विवरण सही है। मैं अनुरोध		
करता/कर	रती हूँ कि मद 11 में उल्लिखित पार्टी से/ को उपर्युक्त	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	दी जाए ।	3		
I		lars given above are true. I request that I may be given		
permission	on to acquire/dispose of property as described above from/to t			
	<u>या /OR</u>			
	मैं एतदद्वारा उपरोक्त संपत्ति के प्रस्त	गवित अर्जन/बेचने के बारे में सूचित करता/ करती हूँ । मै		
घोषित क	घोषित करता/करती हूँ कि ऊपर दिये गए सभी विवरण सत्य है ।			
I hereby intimate the proposed acquisition / disposal of property by me as detailed above. declare that the particulars given above are true.				

नोट/Note : 1. उपरोक्त फॉर्म में, आवश्यकता के अनुसार विभिन्न भागों को भरा जाए । In the above form, different portions may be used according to requirement.

स्थान/Station:

दिनांक /Date :

2. पूर्व मंजूरी लेने हेतु, प्रस्तावित लेन-देन की तारीख से 30 दिन पहले आवेदन जमा करें ।

Where previous Sanction is asked for, the application should be submitted at least 30 days before the proposed date of the transaction.

हस्ताक्षर/Signature :

पदनाम/ Designation :